

Total No. of Printed Pages : 12

B.A./B.Sc./B.Com. (Semester-II) Examination, 2025

(For Regular & NC) As per NEP 2020

SKILL ENHANCEMENT COURSE**Paper Code : VAC-T-009****OMR Code : 147****(Financial Literacy)****Time : 1.00 Hour****Maximum Marks :** $\begin{cases} 40 \text{ for Regular} \\ 50 \text{ for Non Collegiate} \end{cases}$ **GENERAL INSTRUCTIONS****(सामान्य अनुदेश)**

1. Attempt all the 40 questions. Each question carries 1 mark for regular student and 1.25 mark for Non Collegiate student.

सभी 40 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न नियमित विद्यार्थियों के लिए 1 अंक का है या स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए 1.25 अंक है।

2. Make sure that your question booklet has all the 40 questions. Defective Booklet can be changed within 10 minutes.

प्रश्न-पुस्तिका में सभी 40 प्रश्न छपे हैं। त्रुटिपूर्ण पुस्तिका को 10 मिनट में बदलवाया जा सकता है।

3. All entries should be filled by Blue or Black Ball-point pen. Select the best possible answer and darken the correct answer A or B or C or D in the circle corresponding to that question in OMR sheet with pen.

सभी प्रविष्टियां नीले अथवा काले बॉल-प्वाइंट पेन से ही भरें। दिये गये चार विकल्पों A या B या C या D में से सर्वोच्च विकल्प को OMR शीट के उचित वृत्त में भरें।

1. Which of the following is a digital payment Method?
(a) Cash
(b) Cheque
(c) UPI
(d) Money order
2. Which of the following is used for real time bank-to-bank fund transfer?
(a) RTGS
(b) NEFT
(c) IMPS
(d) Demand draft
3. Which service allows biometric based transactions?
(a) ATM
(b) AEPS
(c) RTS
(d) UPI
4. Which card is issued by banks and is linked to a savings account?
(a) Credit Card
(b) Debit Card
(c) Smart Card
(d) Travel Card
5. Which is not a precaution against digital fraud?
(a) Sharing DTP
(b) Using secure networks
(c) Not clicking unknown links
(d) Using official apps only

1. निम्नलिखित में से कौन-सा डिजीटल भुगतान की विधि है?
(a) नकद
(b) चैक
(c) यूपीआई
(d) मनी आर्डर
2. बैंक से बैंक तत्काल मनी ट्रांसफर के लिये क्या उपयोग में लिया जाता है?
(a) आरटीजीएस
(b) एनईफटी
(c) आईएमपीएस
(d) डिमांड ड्राफ्ट
3. कौन-सी सेवा बायोमैट्रिक आधारित लेन-देन की अनुमति देती है?
(a) एटीएम
(b) आईपीएस
(c) आरटीजीएस
(d) यूपीआई
4. कौन-सा कार्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है और बचत खाते से जुड़ा होता है?
(a) क्रेडिट कार्ड
(b) डेबिट कार्ड
(c) स्मार्ट कार्ड
(d) ट्रेवल कार्ड
5. निम्न में से कौन-सा डिजीटल धोखाधड़ी से बचाव नहीं करता है?
(a) ओटीपी साझा करना।
(b) सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करना।
(c) अज्ञात लिंक पर क्लिक न करना।
(d) केवल आधिकारिक एप्स का उपयोग करना

SET B

- | | |
|---|---|
| <p>6. Which one is an advantage of digital payments?</p> <p>(a) Long processing time</p> <p>(b) High risk of fraud</p> <p>(c) Fast & easy transactions</p> <p>(d) Cash dependency</p> <p>7. Which facility allows transferring funds 24×7 instantly?</p> <p>(a) RTGS</p> <p>(b) NEFT</p> <p>(c) IMPS</p> <p>(d) Cheque</p> <p>8. Which digital payment method uses QR Codes?</p> <p>(a) UPI</p> <p>(b) RTGS</p> <p>(c) NEFT</p> <p>(d) IMPS</p> <p>9. Which of the following is NOT a banking Product?</p> <p>(a) Loan</p> <p>(b) Insurance</p> <p>(c) Debit card</p> <p>(d) Groceries</p> <p>10. Which digital payment service is India-specific?</p> <p>(a) Paypal</p> <p>(b) UPI</p> <p>(c) VISA</p> <p>(d) Mastercard</p> | <p>6. डिजीटल भुगतान का लाभ क्या है?</p> <p>(a) लंबा प्रसंस्करण समय।</p> <p>(b) धोखाधड़ी का अधिक जोखिम</p> <p>(c) तेज और आसान लेनदेन</p> <p>(d) नकद पर निर्भरता</p> <p>7. कौन-सी सुविधा 24×7 धन तुरंत स्थानांतरण की अनुमति देती है?</p> <p>(a) आरटीजीएस</p> <p>(b) एनईफटी</p> <p>(c) आइएमपीएस</p> <p>(d) चैक</p> <p>8. कौन-सी डिजीटल भुगतान विधि क्यूआर कोड का उपयोग करती है?</p> <p>(a) यूपीआई</p> <p>(b) आरटीजीएस</p> <p>(c) एनईएफटी</p> <p>(d) आइएमपीएस</p> <p>9. निम्नलिखित में से कौन-सा बैंकिंग उत्पाद नहीं है?</p> <p>(a) ऋण</p> <p>(b) बीमा</p> <p>(c) डेबिट कार्ड</p> <p>(d) किराना।</p> <p>10. कौन-सी डिजीटल भुगतान सेवा भारत विशिष्ट है?</p> <p>(a) पेपाल</p> <p>(b) यूपीआई</p> <p>(c) वीसा</p> <p>(d) मास्टर कार्ड</p> |
|---|---|

11. Which of the following is a type of Investment product?
 (a) Fixed deposit
 (b) Grocery
 (c) Mobile phone
 (d) Furniture
12. Diversification in investment helps to :
 (a) Increase expenses
 (b) Increase taxes
 (c) Reduce Risk
 (d) Increase Inflation
13. Mutual funds invest in.....?
 (a) Real Estate
 (b) Gold only
 (c) A pool of securities
 (d) Only foreign markets
14. Which of the following is a market linked investment?
 (a) Equity share
 (b) Bank FD
 (c) Post office savings
 (d) PPF
15. Which of the following is an Exchange traded fund? (ETF)
 (a) LIC Policies
 (b) Bank Loan
 (c) Kisan Vikas Patra
 (d) Nifty 50 ETF

11. निम्नलिखित में से कौन-सा एक निवेश उत्पाद है?
 (a) सावधि जमा
 (b) मोबाइल फोन
 (c) किराना
 (d) फर्नीचर
12. निवेश में विविधीकरण किसमें मदद करता है?
 (a) खर्च बढ़ाने में
 (b) कर बढ़ाने में
 (c) जोखिम कम करने में
 (d) मुद्रा स्फीति बढ़ाने में
13. म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करते हैं?
 (a) अचल संपत्ति
 (b) केवल सोना
 (c) प्रतिभूतियों के समूह में
 (d) केवल विदेशी बाजारों में
14. निम्नलिखित में से कौन-सा एक बाजार से जुड़ा हुआ निवेश है?
 (a) इक्विटी शेयर
 (b) बैंक सावधि जमा
 (c) डाकघर बचत
 (d) सार्वजनिक भविष्य निधि
15. निम्नलिखित में से कौन एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है?
 (a) एलआईसी पॉलिसी
 (b) किसान विकास पत्र
 (c) बैंक ऋण
 (d) निफ्टी 50 ईटीएफ

SET B

16. Which of these is a types of derivative?
- (a) Bond
 - (b) Mutual fundOption
 - (c)
 - (d) PPF
17. What is the purpose of insurance?
- (a) Increase Savings
 - (b) Provide Loans
 - (c) Reduce taxes
 - (d) Provide protection against risk
18. Which one is a type of non-life insurance?
- (a) Endowment Plan
 - (b) Term insuranceM
 - (c) otor insurance
 - (d) Life insurance
19. Which of the following is included in general insurance?
- (a) Pension
 - (b) Health insurance
 - (c) ULIP
 - (d) PPF
20. Which is the first step in insurance planning?
- (a) Claim Settlement
 - (b) Risk assessment
 - (c) Buying Policy directly
 - (d) Filling Proposal form

16. इनमें से कौन एक डेरिवेटिव का प्रकार है?
- (a) बांड
 - (b) विकल्प
 - (c) म्यूचुअल फंड
 - (d) पीपीएफ
17. बीमा का उद्देश्य क्या है?
- (a) बचत बढ़ाना
 - (b) ऋण प्रदान करना
 - (c) कर कम करना
 - (d) जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना।
18. इनमें से कौन-सा गैर-जीवन बीमा का प्रकार है?
- (a) एंडोमेंट योजना।
 - (b) टर्म बीमा।
 - (c) मोटर बीमा।
 - (d) जीवन बीमा।
19. निम्नलिखित में से क्या सामान्य बीमा में शामिल हैं?
- (a) पेंशन
 - (b) स्वास्थ्य बीमा
 - (c) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना
 - (d) सार्वजनिक भविष्य निधि
20. बीमा योजना में पहला कदम क्या है?
- (a) दावा निपटाना
 - (b) जोखिम मूल्यांकन
 - (c) सीधे पॉलिसी खरीदना
 - (d) प्रस्ताव फार्म भरना

21. How many heads of income are there in Indian tax system?
- (a) 3
(b) 5
(c) 6
(d) 4
22. Which income is exempt from tax?
- (a) Salary
(b) Agriculture Income
(c) Business Income
(d) Capital Gains
23. Which of the following is NOT a head of income?
- (a) Income from Salary
(b) Income from house property
(c) Gifts from friends
(d) Income from business
24. Which of the following is a deduction under section 80C?
- (a) Life Insurance Premium
(b) House rent
(c) Fixed deposit in bank
(d) Electricity bill
25. Filing of Income Tax Return can be done through :
- (a) Offline mode only
(b) Visiting IT office
(c) Online e-Filing
(d) By phone

21. भारतीय कर प्रणाली में आय के तिने स्रोत हैं?
- (a) 3
(b) 5
(c) 6
(d) 4
22. निम्नलिखित में से कौन-सी आयकर से मुक्त होती है?
- (a) वेतन
(b) कृषि आय
(c) व्यवसायिक आय
(d) पूंजीगत लाभ
23. निम्नलिखित में से कौन आय का स्रोत नहीं है?
- (a) वेतन से आय
(b) मकान संपत्ति से आय
(c) दोस्तों से उपहार
(d) व्यवसाय से आय
24. निम्नलिखित में से कौन धारा 80C के तहत कटौती है?
- (a) जीवन बीमा प्रीमियम।
(b) मकान किराया।
(c) बैंक में सावधि जमा।
(d) बिजली बिल।
25. आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य कैसे किया जा सकता है?
- (a) केवल ऑफलाइन।
(b) आयकर कार्यालय जाकर
(c) ऑनलाइन ई-फाइलिंग
(d) फोन द्वारा

SET B

26. Which of the following is included under exempted income?
- (a) Dividend from Indian companies
 - (b) Salary
 - (c) Rental Income
 - (d) Bonus
27. What is self-assessment tax?
- (a) Tax paid by employer
 - (b) Tax paid at source
 - (c) Tax paid by individual before filing return
 - (d) Tax refund
28. Which document is needed for tax filing?
- (a) Aadhar Card
 - (b) Ration Card
 - (c) Driving License
 - (d) Voter ID
29. Which of the following is a taxable income?
- (a) Agriculture Income
 - (b) Salary from private job
 - (c) Gifts from relatives
 - (d) Scholarship
30. Which of the following reduces your gross total income?
- (a) Penalty
 - (b) Standard deduction
 - (c) Bonus
 - (d) Commission

26. निम्नलिखित में से कौन छूट वाली आय में शामिल है?
- (a) भारतीय कम्पनियों से लाभांश
 - (b) वेतन
 - (c) किराया आय
 - (d) बोनस
27. स्व-मूल्यांकन कर क्या है?
- (a) नियोक्ता द्वारा चुकाया बाया कर।
 - (b) स्रोत पर चुकाया गया कर।
 - (c) रिटर्न दाखिल करने से पहले व्यक्ति द्वारा चुकाया गया कर।
 - (d) कर वापसी।
28. कर दाखिल करने के लिये कौन-सा दस्तावेज आवश्यक है?
- (a) आधार कार्ड
 - (b) राशन कार्ड
 - (c) ड्राइविंग लाइसेंस
 - (d) मतदाता पहचान पत्र
29. निम्नलिखित में से कौन-सी आय कर योग्य है?
- (a) कृषि आय
 - (b) निजी नौकरी से वेतन
 - (c) रिश्तेदारों से उपहार
 - (d) छात्रवृत्ति
30. निम्नलिखित में से कौन आपकी सकल कुल आय को कम करता है?
- (a) जुर्माना
 - (b) मानक कटौती
 - (c) बोनस
 - (d) कमीशन

31. Which of the following is a component of good budgeting?
- Impulse spending
 - Over spending
 - Savings habit
 - Ignoring expenses
32. What is the formula for compound Interest?
- $\frac{P \times R \times T}{P \times R \times T}$
 - $P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^T$
 - $\frac{(P + T)}{R}$
 - None of the above
33. Which financial concept helps determine the value of money in future?
- Present value
 - Future value
 - Annuity value
 - Perpetuity
34. Net present value is used to :
- Evaluate Investment profitability
 - Calculate interest rate
 - Manage Cash
 - Find annual income
35. Which one of the following is NOT a financial Product?
- Mutual fund
 - Life Insurance
 - Grocery items
 - Fixed deposits

31. निम्नलिखित में से कौन अच्छी बजट योजना का एक घटक है?
- आवेग में खर्च करना
 - अत्यधिक खर्च।
 - बचत की आदत।
 - खर्चों की अनदेखी।
32. चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है?
- $\frac{P \times R \times T}{P \times R \times T}$
 - $P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^T$
 - $\frac{(P + T)}{R}$
 - इनमें से कोई नहीं
33. कौन-सा वित्तीय सिद्धांत भविष्य में धन के मूल्य को निर्धारित करने में सहायता करता है?
- वर्तमान मूल्य
 - भविष्य मूल्य
 - वार्षिकी
 - अनंत वार्षिकी
34. शुद्ध वर्तमान मूल्य का उपयोग किस लिये किया जाता है?
- निवेश की लाभप्रदता का मूल्यांकन।
 - ब्याज दर की गणना के लिये।
 - नकदी प्रबंधन के लिये
 - वार्षिक आय खोजने के लिये
35. निम्न में से कौन-सा वित्तीय उत्पाद नहीं है?
- म्यूचुअल फंड
 - जीवन बीमा
 - किराने का सामान
 - सावधि जमा

SET B

36. Which concept involves managing, Controlling and analyzing expenses?
(a) Financial discipline
(b) Investment Planning
(c) Budget deficit
(d) Tax management
37. Which of the following is a time value of money concept?
(a) Budgeting
(b) Spending
(c) Saving habit
(d) Perpetuity
38. Which of these is used to calculate future value?
(a) Net Present value
(b) Annuity
(c) Compound Interest
(d) Perpetuity
39. Which one is NOT a key element of financial discipline?
(a) Controlling spending
(b) Avoiding Savings
(c) Budgeting
(d) Expense Analysis
40. Which fund accumulates money for future Liabilities?
(a) Emergency fund
(b) Sinking fund
(c) Income fund
(d) Expense fund
36. किस अवधारणा में खर्चों का प्रबंधन, नियंत्रण और विश्लेषण शामिल होता है?
(a) वित्तीय अनुशासन
(b) निवेश योजना
(c) बजट घाटा
(d) कर प्रबंधन
37. निम्नलिखित में से कौन-सा “धन के समय मूल्य” की अवधारणा है?
(a) बजट बनाना
(b) खर्च
(c) बचत की आदत
(d) अनंत वार्षिकी
38. इनमें से किसका उपयोग भविष्य मूल्य की गणना के लिये किया जाता है?
(a) शुद्ध वर्तमान मूल्य
(b) वार्षिकी
(c) चक्रवृद्धि ब्याज
(d) अनंत वार्षिकी
39. निम्न में से कौन-सा वित्तीय अनुशासन का मुख्य तत्त्व नहीं है?
(a) खर्चों पर नियंत्रण
(b) बजट बनाना
(c) बचत से बचना
(d) खर्चों का विश्लेषण
40. कौन-सा फंड भविष्य की देनदारियों के लिये धन एकत्र करता है?
(a) आपातकालीन निधि
(b) सिंकिंग फंड
(c) आयनिधि
(d) खर्च निधि

